



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1980/आषाढ़ 12, 1902

No. 123]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 1980/ASADHA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व प्रभाग)

(अप्रत्यक्ष कर विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1980

सं० प्रतिभूतियाँ/सां०सू० 31/80

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/3830-4809-5902/80-डो० डी०के०.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभूतियाँ नियम, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभूतियाँ/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. उप क्रम सं० 3830 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

उप क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिभूतियाँ की दर
3830	सभी प्रकार का थर्मिट पारणन।	थर्मिट पारणन के प्रति किलो-ग्राम पर 0.65 रु० (केवल पैसठ पैसे)।

2. उपक्रम सं० 4809 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

उप क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिभूतियाँ की दर
4809	छत के विद्युत पंखा के लिए एल्युमीनियम के बने थैले।	3.00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति किलोग्राम।

3. उपक्रम सं० 5902 की मब (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(ii) एल्युमीनियम से बने—

(क) साइज सं० 3 30.50 रु० (केवल तीस रुपये पचास पैसे) प्रति एक हजार मीटर।

(ख) साइज सं० 5 अथवा उससे बड़े 50.00 रु० (केवल पचास रुपये) प्रति एक हजार मीटर।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1980 के पहले दिन को लागू हुई मसौदा जायेगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 3rd July, 1980

No. DRAWBACK/PN-31/80

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/3830/4809/5902/80-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

1. For Sub-Serial No. 3830 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3830	Thermit portion of all sizes.	Rs. 0.65 (Paise sixty five only) per Kg. of thermit portion.

2. For Sub-Serial No. 4809 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

4809	Blades made of aluminium for electric ceiling fans.	Rs. 3.00 (Rupees three only) per Kg.
------	---	--------------------------------------

3. For item (ii) of Sub-Serial No. 5902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(ii) made of aluminium—

(a) size No. 3	Rs. 30.50 (Rupees thirty and paise fifty only) per one thousand metres.
(b) size No. 5 or bigger than that	Rs. 50.00 (Rupees fifty only) per one thousand metres.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the First day of June, 1980.

शुद्धि पत्र

सं. प्रतिअदायगी/सां.सू. 32/80

फ.सं. 600/2103/2105/79-प्रतिअदायगी.—भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-11-79 के भाग 1 खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सां.सू. 81/79 और प्रतिअदायगी/सां.सू.-82/79 में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है।

दिनांक 14-11-79 की सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सां.सू./81/79 में उल्लिखित उपक्रम सं. 2105 की मद (ख) की उपमद (ii) तथा अधिसूचना सं. प्रतिअदायगी सां.सू.-82/79 में उल्लिखित उपक्रम सं. 2103 की मद (ख) की उपमद (ii) के सामने 'माल का बिवरण' स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(ii) वे जो वेड़, बकरी तथा उनके शावकों के चर्म से निर्मित हों, जिनमें उनसे निर्मित एप्रन भी शामिल हैं।"

CORRIGENDUM

DRAWBACK/PN-32/80.

F. No. 600/2103/2105/79-DBK.—In the Public Notice Nos. DRAWBACK/PN-81/79 and DRAWBACK/PN-82/79, dated the 14th November, 1979, published in Part I, Section (1) of the Gazette of India (Extraordinary) dated the 14th November, 1979, the Central Government hereby makes the following corrections therein.

In the column 'Description of goods' against sub item (ii) of item (b) of sub-serial No. 2105 mentioned in Public Notice No. DRAWBACK/PN-81/79 dated 14-11-79 and sub item (ii) of item (b) of Sub-Serial No. 2103 mentioned in Public Notice No. DRAWBACK/PN-82/79 dated the 14th November, 1979 for the existing entries the following shall be substituted; namely:—

"(ii) Those from skins of sheep, goat and their young ones, including aprons therefrom".

प्रतिअदायगी/सां.सू. 33/80

सार्वजनिक सूचना

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.सं.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सां.सू. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. उपक्रमांक 2502 के खण्ड (क) की मद (ग) की उपमद (ii) के समक्ष "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:—

"12.40 रु. (केवल बारह रुपये बालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।"

2. उपक्रमांक 2503 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) की मद (ब) की उपमद (ii) के समक्ष "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"12.90 रु. (केवल बारह रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।"

यह सार्वजनिक सूचना 2 जुलाई, 1980 को लागू हुई समझी जायेगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-33/80

PUBLIC NOTICE

Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

1. In the Column 'Rate of Drawback' against sub-item (ii) of item (c) of clause (A) of Sub-Serial No. 2502 for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 12.40 (Rupees twelve and paise forty only) per kg."

2. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (ii) of item (d) of sub-clause (i) of clause (c) of sub-serial No. 2503, for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 12.90 (Rupees twelve and paise ninety only) per kg."

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 2nd day of July, 1980.

MAHESH KUMAR, Under Secy.